

ग्रीष्मावकाश गृहकार्य

कक्षा – 12 अ ब स

इन सभी कार्यों को अलग से एक कॉपी (200 पेज) में करें। परियोजना कार्य एक सुंदर –सी फाइल में करें

1. अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से निम्नलिखित के बारे में दो या तीन वाक्यों में बताएँ ; -उलटा पिरामिड शैली, उलटा पिरामिड शैली के भाग, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज, संचार, जन संचार, इंटरनेट पत्रकारिता, प्रिंट माध्यम की खूबियाँ और खामियाँ, भारत में छापाखाना, डेड लाइन, एनकोडिंग, डीकोडिंग, शोर, छह ककार, पूर्ण कालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, फीचर, आलेख, समाचार, खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी, पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, पेज श्री पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, बीट, विशेषीकृत पत्रकारिता, सम्पादकीय, स्तम्भ लेखन, डेस्क।

2. निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रेमचन्द, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा, रैदास, बच्चन, मुक्तिबोध, जैनेंद्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मैथिली शरणं गुप्त, विष्णु खरे आदि में से किन्हीं एक साहित्यकार पर शोधपरक परियोजना तैयार करें :-

* मुख्य पृष्ठ पर साहित्यकार का सुन्दर फोटो लगाए।

* चित्र के ऊपर साहित्यकार का पूरा नाम और उपनाम

* चित्र के नीचे अपना नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, खंड, विद्यालय और पाली का नाम

* पहले 2 एवम् अंत का एक पेज खाली रखें। उस पर कुछ भी न लिखें।

* फाइल के पीछे साहित्यकार की रचनाएँ और उनका प्रकाशन वर्ष लिखें।

* जीवनी में निम्नलिखित बातें शामिल करें – नाम, माता-पिता, शिक्षा, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएँ, प्राप्त पुरस्कार, अन्य योगदान आदि।

3. निम्नलिखित के बारे में लिखिये :- शब्द – शक्ति और उसके 3 प्रकार

4. रस की परिभाषा और भेद वर्णन करते हुए लिखिये।

5. आलेख लिखिए –

भारतीय कृषि की चुनौती, भारत का बदलता चेहरा, बढ़ती आबादी – देश की बर्बादी

6. फीचर लिखिए –

बिना प्यास के भी पिँ , बस्ते का बढता बोझ , चुनावी वायदे , फुटपाथ पर सोते लोग

7. पत्र लिखिए –

नौकरी के लिये आवेदन पत्र, शिकायती पत्र , सम्पादक को पत्र , एक कार्यालयी पत्र

8. निम्नलिखित विषयों पर एक अनुच्छेद लिखिए(लगभग 200 शब्द)-

अध्ययन का आनंद, आज का विद्यार्थी , आधुनिक युग में कम्प्यूटर ,पर्यटन , वैश्वीकरण , मेरे जीवन का लक्ष्य , सब दिन होत न एक समाना, परीक्षा की तैयारी ,भ्रष्टाचार : समस्या और समाधान

9. किसी एक विषय पर कविता लिखिए ।

10. अपनी पुस्तक आरोह के गद्य पाठो के कम से कम कठिन 100 शब्दों अर्थ शब्दकोश की सहायता से लिखिए ।